



NATIONAL TESTING AGENCY

Excellence in Assessment

(उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)

(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

सार्वजनिक सूचना

मई 04, 2021

विषय: मई सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2021 को स्थगित करने के सन्दर्भ में.....

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्र समुदाय का समर्थन करने के प्रयास में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2021 का **चार बार आयोजन** कर रही है। जिनमे से **दो सत्रों** फरवरी (सत्र 1: 23 से 26 फरवरी 2021) एवं मार्च (सत्र 2: 16 से 18 मार्च 2021) का आयोजन हो चुका है। सत्र 1 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 620978 एवं सत्र 2 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 556248 है।

जेईई (मुख्य) - 2021 का अप्रैल सत्र जो 27, 28, और 30 अप्रैल को होना निर्धारित किया गया था, पहले ही COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है।

मई सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2021 का आयोजन 24, 25, 26, 27, 28 मई 2021 को होना निर्धारित किया गया था। परन्तु वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए **जेईई (मुख्य) - 2021 के मई सत्र को भी अगले निर्देश तक स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा की संशोधित तिथियाँ बाद में घोषित की जायेंगी जो परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले घोषित कर दी जायेंगी।**

मई सत्र के लिए आवेदन करने की तिथियों की घोषणा भी बाद में की जाएगी। अप्रैल और मई सत्रों का पुनर्निर्धारण बाद में किया जाएगा।

इस दौरान, अभ्यर्थी इस समय का उपयोग परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। अभ्यर्थी **एनटीए अभ्यास एप (NTA Abhyas App)** के माध्यम से (पूर्ण पाठ/अध्यायवार) घर बैठकर परीक्षा का अभ्यास कर सकते हैं।

अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइटो (**www.nta.ac.in**) एवं (**jeemain.nta.nic.in**) का यथासमय अवलोकन करते रहें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2021 से सम्बंधित अधिक स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी **011-40759000** एवं **jeemain@nta.ac.in** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

J. Parashar

(डॉ साधना पराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)